



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2807]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937

No. 2807]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3528(अ).— दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-‘क’ के अंतर्गत मुख्य योजना/जोन ‘डी’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **तीस दिनों** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और फोन नं. भी दें।

संशोधन :

अवस्थिति	क्षेत्रफल	दि.मु.यो.-2021/क्षे.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1	2	3	4	5
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अक्षय ऊर्जा भवन, जो सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स के सामने स्थित है एवं जिसका मुख्य द्वार जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली को	1.12 हेक्टेयर (2.76 एकड़)	दि.मु.यो.— 2021 के अनुसार—‘आवासीय’	‘सरकारी (सरकारी कार्यालय)’	उत्तर : दयाल सिंह कॉलेज दक्षिण : 13.5 मार्गाधिकार वाली सड़क एवं प्रगति विहार हॉस्टल पूर्व : राष्ट्रीय जांच एजेंसी की भूमि

जाने वाली सड़क की तरफ है तथा जो योजना जोन-‘डी’ के अंतर्गत आता है।		दि.मु.यो.-2001 के अंतर्गत तैयार की गई जोन-‘डी’ की अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार-‘परिवहन (बस टर्मिनल)’।	‘सरकारी (सरकारी कार्यालय)’	पश्चिम : लोधी रोड कॉम्प्लेक्स एवं पार्क।
---	--	---	----------------------------	---

प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ/नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को, उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा दि.वि.प्रा. की वेबसाइट अर्थात् www.dda.org.in पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ. 20(11)2015-एम पी]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

दिनांक : 29.12.2015

नई दिल्ली

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th December, 2015

S.O. 3528(E).— The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan-2021 / Zonal Development Plan of Zone ‘D’ under section 11-A of DD Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, ‘B’ Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty (30) days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address and telephone/ contact number(s) which should be legible.

Modifications:

Location	Area	Land use as per MPD-2021/ ZDP	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Proposed Akshay Urja Bhawan for the Ministry of New and Renewable Energy, opposite CGO Complex, opening on Road to JLN Stadium, New Delhi, falling in Planning, Zone-‘D’	1.12 ha. (2.76 acres)	As per MPD-2021 - ‘Residential’	‘Government (Govt. Office)’	North: Dayal Singh College South: 13.5 R/W Road and Pragati Vihar Hostel East: Land of National Investigating Agency West: Lodhi Road Complex and Park
		As per approved Zonal Development Plan of Zone-D prepared under MPD-2001- ‘Transportation (Bus terminal)’	‘Government (Govt. Office)’	

The text /plan indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the office of Deputy Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days during the period referred above. The plan indicating the proposed modifications is also available on DDAs website i.e. www.dda.org.in.

[F. No. F. 20 (11)2015- M P]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secretary

Date: 29.12.2015

New Delhi